

1. वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A. कंपनी की बिक्री बढ़ाना
- B. कर्मचारियों की संख्या घटाना
- C. शेयरधारकों की संपत्ति अधिकतम करना
- D. संपत्तियों की संख्या बढ़ाना (C)

व्याख्या: वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य इक्विटी शेयरों का मूल्य बढ़ाकर शेयरधारकों की संपत्ति अधिकतम करना है।

2. निम्न में से कौन-सा पूंजी बजट (Capital Budgeting) निर्णय है?

- A. लाभांश तय करना
- B. अल्पकालिक ऋण लेना
- C. नई मशीन में निवेश करना
- D. मासिक वेतन देना (C)

व्याख्या: पूंजी बजट निर्णय दीर्घकालिक निवेश से संबंधित होते हैं, जैसे मशीनरी खरीदना।

3. वित्तीय योजना क्या सुनिश्चित करती है?

- A. अधिक धन की उपलब्धता
- B. वित्त की आवश्यकता नहीं
- C. सही समय पर पर्याप्त धन
- D. केवल ऋण वित्त (C)

व्याख्या: वित्तीय योजना समय पर पर्याप्त धन की उपलब्धता सुनिश्चित करती है और अतिरिक्त या कमी से बचाती है।

4. "ट्रेडिंग ऑन इक्विटी" का क्या तात्पर्य है?

- A. केवल इक्विटी शेयर जारी करना
- B. ऋण के माध्यम से ईपीएस बढ़ाना
- C. इक्विटी सार्वजनिक रूप से बेचना
- D. वित्तीय जोखिम कम करना (B)

व्याख्या: ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का अर्थ है निश्चित वित्तीय शुल्क (जैसे ब्याज) के उपयोग से इक्विटी धारकों की आय बढ़ाना।

5. उच्च ऋण सेवा कवरेज अनुपात (DSCR) क्या दर्शाता है?

- A. कमजोर वित्तीय स्थिति
- B. ऋण दायित्वों को पूरा करने की बेहतर क्षमता
- C. ऋण की उच्च लागत
- D. कम शुद्ध लाभ (B)

व्याख्या: उच्च DSCR से पता चलता है कि कंपनी ऋण से संबंधित भुगतान को आसानी से पूरा कर सकती है।

6. निम्न में से कौन पूंजी संरचना को सीधे प्रभावित नहीं करता?

- A. कर दर
- B. फैशन प्रवृत्तियाँ
- C. इक्विटी की लागत
- D. वित्तीय जोखिम (B)

व्याख्या: फैशन प्रवृत्तियाँ पूंजी संरचना के निर्णय को प्रभावित करने वाला वित्तीय कारक नहीं है।

7. कार्यशील पूंजी का कौन-सा घटक है?

- A. भूमि और भवन
- B. संयंत्र और मशीनरी
- C. इन्वेंटरी (भंडार)
- D. गुडविल (C)

व्याख्या: इन्वेंटरी एक चालू संपत्ति है और कार्यशील पूंजी का भाग है।

8. वित्तीय जोखिम का क्या अर्थ है?

- A. गोदाम में आग लगने का जोखिम
- B. खराब विपणन का जोखिम
- C. निश्चित वित्तीय दायित्वों को पूरा न कर पाने का जोखिम
- D. उपभोक्ता पसंद में बदलाव का जोखिम (C)

व्याख्या: वित्तीय जोखिम तब होता है जब कोई कंपनी ब्याज, लाभांश या ऋण भुगतान में चूक करती है।

9. जब किसी कंपनी की निवेश पर प्रतिफल (RoI) ऋण लागत से अधिक होती है, तो क्या होता है?

- A. ईपीएस घटता है
- B. इक्विटी कम हो जाती है
- C. ईपीएस बढ़ता है
- D. कंपनी का मूल्य घटता है (C)

व्याख्या: जब RoI ऋण लागत से अधिक होता है, तो कंपनी को अनुकूल वित्तीय लाभ मिलता है जिससे EPS बढ़ता है।

10. निम्नलिखित में से कौन वित्तीय प्रबंधन का प्रमुख कार्य है?

- A. उत्पाद की पैकेजिंग
- B. निवेश, वित्तपोषण और लाभांश निर्णय लेना
- C. कर्मचारियों की भर्ती
- D. गुणवत्ता नियंत्रण (B)

व्याख्या: वित्तीय प्रबंधन का कार्य प्रभावी निवेश, वित्तपोषण और लाभांश निर्णय लेना होता है।